









请召真言曰。

请召真言

oṃ, ṣaṇ-mukha, ṣaḍ-bhuja, ṣaṭ-caraṇa, asi musala paraśu  
唵 善<sub>(卷)</sub>-目咖沙<sub>(卷)</sub>得<sub>(卷)</sub>-铺加沙<sub>(卷)</sub>得<sub>(卷)</sub> 加喇<sub>(弹)</sub>拿<sub>(卷)</sub> 阿悉 目萨拉 巴喇<sub>(弹)</sub>修  
pāśa hasta.  
巴<sub>(引)</sub>霞 哈斯达<sub>(合)</sub>

ॐ षड्मुखसुषुड्भुजसुषुड्चरणासिमसलापराशु  
पाशाहस्ता

阙伽真言曰。

阙伽真言

oṃ, mahā-vighna ghātaka.  
唵 吗哈<sub>(引)</sub>-微克拿<sub>(合)</sub> 咖<sub>(引)</sub>达嘎

ॐ महाविघ्नघातक

献座真言曰。

献座真言

oṃ, huṃ huṃ sphaṭ sphaṭ.  
唵 吽 吽 斯帕<sub>(合)</sub>得<sub>(半)</sub> 斯帕<sub>(合)</sub>得<sub>(半)</sub>

ॐ हुं हुं स्पष्ट स्पष्ट

澡浴真言曰。

澡浴真言

oṃ, sarva bhūta bhayaṃ-kara.  
唵 萨勒哇 铺<sub>(引)</sub>达 帕阳-嘎喇<sub>(弹)</sub>

ॐ सर्वभूतभयानकर

金刚铃真言曰。



加持五色粉围坛真言

oṃ, sarva duṣṭa-sattvāṃ pra-veśaya pra-veśaya  
唵 萨勒哇 度施(卷)达(合、卷)-萨得旺(合、引) 波喇(合、弹)-微霞呀 波喇(合、弹)-微霞呀  
maṇḍala-madhye.  
曼达(卷)拉-吗提耶(合)

ॐ स र्व दु ष्ट म स त्त व ा ण प्र वे श य प्र वे श य  
म ण ड ल म द ह्ये ।

宝帐真言曰。

宝帐真言

oṃ, mā-vilambaṃ mā-vilambam.  
唵 吗(引)-微浪帮 吗(引)-微浪帮

ॐ म विलं बं म विलं बं म

幢幡真言曰。

幢幡真言

oṃ, vaivasvata jīvitānta-kara.  
唵 外哇斯哇(合)达 积(引)微单(引)达-嘎喇(弹)

ॐ वै व स व त्ता न्त क र ः

幡真言曰。

幡真言

oṃ, kuru kuru mama kāryam.  
唵 古噜(弹) 古噜(弹) 吗吗 嘎(引)利阻(合)

ॐ कुरु कुरु म म क ा र्य म

宝轩冕真言曰。

宝轩冕真言

oṃ, sarva āśā pari-pūraka.  
唵 萨勒哇 阿(引)霞(引) 巴哩(弹)-布(引)喇(弹)嘎





